



# भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़-160019



प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 30.12.2013

विषय: बीबीएमबी ने पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता ।



श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीबीएमबी (inset) की ओर से बीबीएमबी की पी.आर.टीम, श्री ओ.पी.रावत, सचिव, पब्लिक एंटरप्राइसिस विभाग, भारत सरकार से अवार्ड प्राप्त करते हुए।

चण्डीगढ़ : भाखड़ा बांध के समर्पण की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर श्री हरीश रावत, माननीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार ने बीबीएमबी द्वारा

प्रकाशित "काफी टेबल बुक" को जारी किया। श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीबीएमबी के कुशल मार्ग दर्शन में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया।

पब्लिक रिलेशन्स सोसाइटी ऑफ इण्डिया द्वारा 28 दिसम्बर, 2013 को होटल Eros, नई दिल्ली में आयोजित 35वीं ऑल इण्डिया पब्लिक रिलेशन्स कांफ्रेंस के दौरान बीबीएमबी को "काफी टेबल बुक" के प्रकाशन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीबीएमबी की ओर से बीबीएमबी की पी.आर.टीम द्वारा श्री ओ.पी.रावत, सचिव, पब्लिक एंटरप्राइसिस विभाग, भारत सरकार से प्राप्त किया। इस "काफी टेबल बुक" में भाखड़ा बांध का संक्षिप्त विवरण सहित चित्रण किया गया है जो उनकी संरचना से सम्पूर्णता तथा उनके परिचालन एवं अनुरक्षण को दर्शाती है।

"पब्लिक रिलेशन्स सोसाइटी ऑफ इण्डिया" पूरे देश में भारत के जन सम्पर्क व्यवसायिकों का एक अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है। इसके सदस्य व्यापक रूप से प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर, व्यापार संगठनों, सरकारी सैक्टर, सार्वजनिक यूटिलिटीज़ गैर सरकारी संगठनों, पीआर परामर्शदाताओं, विज्ञापन से जुड़े व्यवसायिकों और पीआर शिक्षा शास्त्रियों से लिए जाते हैं। पीआरएसआई राष्ट्रीय

एवं सामाजिक महत्त्व के विभिन्न विषयों पर लोकमत के निर्णय के लिए संचार साधनों का प्रयोग करता है। मीडिया पारदर्शिता अभियान, भारतीय एकता अभियान, आंतकवाद विरोधी आंदोलन तथा राजनीतिक संप्रेषणों में एथिक्स जैसे अभियानों का श्रेय पीआरएसआई को जाता है। यह पिछले पचास वर्षों से भी अधिक देश भर में 25 चैप्टरों के नेटवर्क के माध्यम से देश की जन सम्पर्क बिरादरी की सेवा कर रहा है।